



# Rajasthan Public Service Commission - 2016

Paper : Account And Business Statistics-I

Ques: 150

Time: 3 Hours

Ques # :1

**In Govt. company the share of Central Govt in paid up capital must be at least :-**

- 1) 51%
- 2) 49%
- 3) 50%
- 4) 75%

**किसी भी सरकारी कम्पनी की प्रदत्त पूँजी में केन्द्र सरकार का हिस्सा न्यूनतम होना चाहिए |**

- 1) 51%
- 2) 49%
- 3) 50%
- 4) 75%

Ques # :2

**Which of the following is foreign company ?**

- 1) A company Incorporated outside India and also has a place of business outside India.
- 2) A company Incorporated in India and has place of business in India.
- 3) A company Incorporated outside India and has a place of business in India.
- 4) A company Incorporated in India and has a place of business outside India.

**निम्न में से कौनसी विदेशी कंपनी है |**

- 1) भारत के बहार समामेलित एवं भारत के बाहर ही व्यापार करने वाली कंपनी
- 2) भारत में समामेलित एवम् भारत में व्यापार करने वाली कंपनी
- 3) भारत के बाहर समामेलित एवम् भारत में व्यापार करने वाली कम्पनी
- 4) भारत में समामेलित एवम् भारत के बहार व्यापार करने वाली कंपनी

Ques # :3

**The Excess price received over par value of share should be credited to \_\_\_\_\_**

- 1) Reserve Capital a/c
- 2) Capital Reserve a/c
- 3) Securities Premium a/c
- 4) Call in advance a/c

**अंश के सममूल्य पर अतिरिक्त प्राप्त राशि को जमा किया जाता है -**

- 1) संचय पूँजी खाते में
- 2) पूँजी संचय खाते में
- 3) प्रतिभूति प्रीमियम खाते में
- 4) अग्रिम मांग राशि खाते में

Ques # :4

**X Ltd forfeited 2000 shares of Rs 10 each called up Rs 8 per share due to Non payment of call money of RS 3 per share, share forfeiture a/c will be credited by -**

- 1) 10,000/-
- 2) 16,000/-
- 3) 6,000/-
- 4) 20,000/-

एक्स लि. ने 10 रूपये वाले 2000 अंश जिन पर 8 रुपया प्रति अंश माँगा गया था | 3 रुपया प्रति अंश मांग राशि का भुगतान नहीं होने के कारण, जब्त किये | अंश हरण खाते को क्रेडिट किया जायेगा -

- 1) 10,000/-
- 2) 16,000/-
- 3) 6,000/-
- 4) 20,000/-

---

Ques # :5

**While granting approval to any scheme of capital Reduction, Court may direct to company to add following words to its name for such period as it thinks fit.**

- 1) And reduced
- 2) Unlimited and Reduced
- 3) Liquidated
- 4) Limited and Reduced

न्यायालय द्वारा कंपनी को पूँजी कटौती की स्वीकृति देते समय निम्न लिखने को निर्देशित किया जा सकता है |  
कुछ समय के लिए जैसा कि वह उचित समझे

- 1) और कम किया
- 2) असीमित तथा कम किया
- 3) समापन किया
- 4) सीमित तथा कम किया

---

Ques # :6

**For capital Reduction under Internal Reconstruction approval is required from**

- 1) Share holders
- 2) Court
- 3) Articles of Association
- 4) All of these

**आन्तरिक पुनः निर्माण के अंतर्गत पूँजी कटौती की स्वीकृति प्राप्त की जाती है**

- 1) अंशधारियों से
- 2) न्यायालय से
- 3) पार्षद अन्तर्नियम
- 4) इनमें से सभी

---

Ques # :7

**Which of the following should be deducted from the called up share capital to find out paid up capital.**

- 1) Calls in advance Amount
- 2) Share forfeitures Amount
- 3) Calls in Arrears Amount
- 4) Discount on Issue of Shares Amount.

**प्रदत्त पूँजी ज्ञात करने के लिए मांगी गयी पूँजी में से कौन सी राशि काटी जाती है |**

- 1) अग्रिम मांग राशि
  - 2) अंश हरण राशि
  - 3) माँग की बकाया राशि
  - 4) अंश निर्गमन पर बट्टा राशि
-

Ques # :8

**Maximum Amount that can be collected as premium as percentage of face value.**

- 1) Unlimited
- 2) 80%
- 3) 50%
- 4) 10%

**अंकित मूल्य के आधार पर अधिकतम प्रीमियम की राशि प्रतिशत में जो कम्पनी द्वारा ली जा सके**

- 1) असीमित
  - 2) 80%
  - 3) 50%
  - 4) 10%
- 

Ques # :9

**The Securities Premium amount may be used by company for \_\_\_\_\_**

- 1) Write off any Loss on sales of Fixed Assets.
- 2) Write off expenses, discount on the Issue of Debenture
- 3) Payment of Dividend
- 4) Write of any loss of Revenue Nature

**कम्पनी द्वारा प्रतिभूति प्रीमियम की राशि का उपयोग किसमें हो सकता है |**

- 1) स्थाई सम्पत्ति को बेचने पर होने वाली हानि को अपलिखित करने हेतु
  - 2) ऋणपत्रों के निर्गमन पर बट्टा | तथा खर्चों को अपलिखित करने हेतु
  - 3) लाभांश भुगतान करने हेतु
  - 4) आयगत प्रकृति की हानि को अपलिखित करने हेतु
- 

Ques # :10

**A company can not issue redeemable preference shares for a period more than \_\_\_\_\_**

- 1) 5 Years
- 2) 10 Years
- 3) 15 Years
- 4) 20 Years

**एक कम्पनी द्वारा शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन \_\_\_\_\_ से अधिक अवधि के लिए नहीं किया जा सकता**

- 1) 5 वर्ष
  - 2) 10 वर्ष
  - 3) 15 वर्ष
  - 4) 20 वर्ष
- 

Ques # :11

**Which of the following can not be used for the purpose of creation of capital redemption Reserve account -**

- 1) Credit balance of Profit & Loss a/c
- 2) General Reserve a/c
- 3) Unclaimed Dividend a/c
- 4) All of these

**निम्न में से किनका उपयोग पूंजी शोधन संचय खाते को बनाने में नहीं किया जा सकता -**

- 1) लाभ - हानि खाते का क्रेडिट शेष
- 2) सामान्य संचय खाता

- 3) बेदावा लाभंश खाता
  - 4) इनमे से सभी
- 

Ques # :12

**Which of the following account can be used for transfer of capital redemption Reserve Account ?**

- 1) General Reserve Account
- 2) Profit prior to Incorporation
- 3) Share forfeited Account
- 4) Securities Premium Account

**निम्न में से कौनसा खाता पूँजी शोधन संचय खाता बनाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है ?**

- 1) सामान्य संचय खाता
  - 2) समामेलन से पूर्व का लाभ
  - 3) अंश हरण खाता
  - 4) प्रतिभूति प्रीमियम खाता
- 

Ques # :13

**The Present Value of the future contribution of employees is related with :-**

- 1) Human Resource Accounting
- 2) Inflation Accounting
- 3) Social Accounting
- 4) Responsibility Accounting

**कर्मचारियों के भावी योगदानों के वर्तमान मूल्य का सम्बन्ध है**

- 1) मानव संसाधन लेखांकन से
  - 2) मुद्रा स्फीति लेखांकन से
  - 3) सामाजिक लेखांकन से
  - 4) उत्तरदायित्व लेखांकन से
- 

Ques # :14

**Which of the following statement is true.**

- 1) Debenture holder is owner of a company
- 2) A Debenture holder can get his money back only on Liquidation of the Company.
- 3) A Debenture Issued at discount can be redeemed at Premium.
- 4) A Debenture holder will receive Interest from company only if company makes Profit.

**निम्न में से कौन सा कथन सत्य है**

- 1) ऋणपत्र धारक कंपनी का स्वामी है |
  - 2) कम्पनी के समापन पर ही ऋणपत्र धारक को पैसा वापस मिलेगा |
  - 3) बट्टे पर निर्गमित ऋण पत्र का शोधन प्रीमियम पर किया जा सकता है |
  - 4) कम्पनी से लाभ की स्थिति में ही ऋणपत्र धारक को ब्याज का भुगतान किया जायेगा |
- 

Ques # :15

**Value Added statement is prepared from**

- 1) Profit and Loss Statement
- 2) Balance Sheet
- 3) Cash Flow Statement
- 4) Fund Flow Statement

मूल्य वर्धन विवरण पत्र किससे तैयार किया जाता है :-

- 1) लाभ हानि विवरण पत्र से
  - 2) चिट्ठे से
  - 3) रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र से
  - 4) कोष प्रवाह विवरण पत्र से
- 

Ques # :16

**Cost of control means**

- 1) Goodwill
- 2) Capital Reserve
- 3) Goodwill or Capital Reserve
- 4) None of these

**'नियंत्रण की लागत' का अर्थ है :-**

- 1) ख्याति
  - 2) पूंजी संचय
  - 3) ख्याति या पूंजीगत संचय
  - 4) इनमे से कोई नहीं
- 

Ques # :17

**Which of the following is false ?**

- 1) A company can Issue Redeemable Debenture
- 2) A company can buy its own debenture.
- 3) A company can buy its own share
- 4) A company can Issue Debenture with voting Right.

**निम्न में से कौन सा कथन असत्य है**

- 1) कम्पनी शोधनीय ऋणपत्र निर्गमित कर सकती है
  - 2) कम्पनी अपने ऋणपत्र खरीद सकती है
  - 3) कम्पनी अपने अंश पत्र खरीद सकती है
  - 4) कम्पनी मताधिकार वाला ऋण पत्र निर्गमित कर सकती है
- 

Ques # :18

**According to Table F of Schedule I of Company Act the maximum rate of interest on Calls in Arrear can be**

- 1) 5% P.A.
- 2) 6% P.A.
- 3) 10% P.A.
- 4) 15% P.A.

**कम्पनी अधिनियम की अनुसूची I की तालिका एफ के अनुसार बकाया मांगो पर ब्याज की अधिकतम दर \_\_\_\_\_ हो सकती है |**

- 1) 5% प्रतिवर्ष
  - 2) 6% प्रतिवर्ष
  - 3) 10% प्रतिवर्ष
  - 4) 15% प्रतिवर्ष
- 

Ques # :19

**When Debentures are Issued as collateral Securities against any loan then holder of such Debenture is entitled to Interest.**

- 1) On amount of Loan
- 2) At Amount of Debenture
- 3) Both (On amount of Loan) and (At Amount of Debenture)
- 4) None of these

**जब ऋणपत्रों को ऋण के बदले समपाश्चिर्वक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किया जाता है तो धारक को ब्याज की राशि मिलेगी |**

- 1) ऋण की राशि पर
- 2) ऋण पत्र की राशि पर
- 3) ऋण की तथा ऋण पत्र की राशि पर
- 4) इनमे से कोई नहीं

---

Ques # :20

**How many companies are involved in Internal Reconstruction :-**

- 1) One
- 2) Two
- 3) Four
- 4) Unlimited

**आन्तरिक पुनः निर्माण में कितनी कम्पनियां शामिल होती हैं**

- 1) एक
- 2) दो
- 3) चार
- 4) असीमित

---

Ques # :21

**Methods of Accounting for Amalgamation of companies are/is**

- 1) The Pooling of Interest Methods
- 2) The Purchase Method
- 3) Both (The Pooling of Interest Methods) and (The Purchase Method)
- 4) None of these

**कंपनियों के एकीकरण में लेखांकन की विधि है**

- 1) हितों की एकीकरण विधि
- 2) क्रय विधि
- 3) हितों की एकीकरण तथा क्रय विधि दोनों
- 4) इनमे से कोई भी नहीं

---

Ques # :22

**When two or more than two companies Liquidate to form a new company, it is called**

- 1) Amalgamation of Companies
- 2) Absorption of Companies
- 3) Internal Reconstruction of company
- 4) Purchase of Business.

**जब दो अथवा दो से अधिक कंपनियों का एक नयी कम्पनी बनाने के लिए समापन होता है उसे कहते हैं |**

- 1) कंपनियों का एकीकरण

- 2) कंपनियों का संविलयन
  - 3) कंपनियों का आन्तरिक पुनः निर्माण
  - 4) व्यापार का क्रय
- 

Ques # :23

**The Adjustment Entry is passed to eliminate the inter company owing is**

- 1) Debit Amalgamation Adjustment and credit Debtors a/c
- 2) Debit Sundry Debtors a/c credit sundry creditors a/c
- 3) Debit sundry creditors a/c, credit sundry Debtors a/c
- 4) Debit sundry debtors account, credit statutory Reserve a/c

**अन्त व्यवहार की देनदारी को समाप्त करने हेतु प्रविष्टि की जायेगी |**

- 1) एकीकरण समायोजन खाता डेबिट तथा देनदार खाता क्रेडिट
  - 2) विविध देनदार खाता डेबिट तथा विविध लेनदार खाता क्रेडिट
  - 3) विविध लेनदार खाता डेबिट तथा विविध देनदार खाता क्रेडिट
  - 4) विविध देनदार खाता डेबिट तथा वैधानिक संचय खाता क्रेडिट
- 

Ques # :24

**The buy-back of equity shares in any financial year cannot exceed \_\_\_\_\_ of its total paid-up equity capital in that financial year.**

- 1) 15%
- 2) 20%
- 3) 25%
- 4) None of these

**समता अंशो की वापसी खरीद की सीमा किसी वित्तीय वर्ष में उसकी चुकता पूंजी के \_\_\_\_\_ से अधिक नहीं हो सकती-**

- 1) 15%
  - 2) 20%
  - 3) 25%
  - 4) इनमे से कोई नहीं
- 

Ques # :25

**Accounting Standard 25 relates to \_\_\_\_\_**

- 1) Interim financial Reporting
- 2) Intangible Assets
- 3) Valuation of Goodwill
- 4) Valuation of Inventory

**लेखा मानक - 25 सम्बंधित है**

- 1) अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन
  - 2) अदृश्य संपत्ति
  - 3) ख्याति का मूल्यांकन
  - 4) स्कन्ध का मूल्यांकन
- 

Ques # :26

**Accounting standard - 4 relates to**

- 1) Lease
- 2) Accounting of fixed Assets

- 3) Valuation of shares
- 4) Contingencies and Events occurring after the balance sheet date.

### लेखा मानक 4 सम्बन्धित है

- 1) पट्टे से
- 2) स्थायी सम्पत्ति के लेखांकन से
- 3) अंशों के मूल्यांकन से
- 4) संदिग्ध तथा चिट्ठे की तिथि के पश्चात होने वाली घटनाएँ

---

Ques # :27

### The prime function of accounting is to

- 1) Record economic data
- 2) provide the informational basis for action
- 3) Classify and record business transaction.
- 4) Attain non-economic goals.

### लेखांकन का प्रमुख कार्य है :-

- 1) आर्थिक आंकड़ों का अभिलेखन
- 2) कार्य के लिए सूचना उपलब्ध कराना
- 3) व्यवसायिक व्यवहारों का वर्गीकरण एवं अभिलेखन
- 4) गैर आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति

---

Ques # :28

### In the final accounts of a joint stock company, the item 'Deferred Tax' appears on the

- 1) Statement of Profit and Loss
- 2) Profit and Loss Appropriation Statement
- 3) Cash Flow Statement
- 4) None of these

### संयुक्त सक्न्ध कम्पनी के अंतिम खातों में "स्थगित कर" बताया जाता है :-

- 1) लाभ व हानि विवरण पत्र
- 2) लाभ व हानि नियोजन विवरण पत्र
- 3) रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र
- 4) इनमे से कोई नहीं

---

Ques # :29

### Conditions to be fulfilled for the appointment of a managing or whole time director or a manager without the approval of the central Government have been prescribed by the Indian Companies Act in its

- 1) Schedule V, Part I
- 2) Schedule VI, Part I
- 3) Schedule VIII, Part I
- 4) Schedule XIV

### प्रबन्धन, पूर्णकालीन संचालक या प्रबंधक की नियुक्ति केंद्र सरकार की अनुमति के अभाव में की जाने वाली शर्तों की पूर्ति का उल्लेख भारतीय कम्पनी अधिनियम की निम्न अनुसूची में वर्णित है :-

- 1) अनुसूची V, भाग I
- 2) अनुसूची VI, भाग I
- 3) अनुसूची VIII, भाग I
- 4) अनुसूची XIV



---

Ques # :30

**Accounting Standard 2 is related to \_\_\_\_\_**

- 1) Cash flow Statement
- 2) Depreciation Accounting
- 3) Valuation of Inventories
- 4) Accounting for Fixed Assets.

**लेखा मानक 02 सम्बंधित है :-**

- 1) रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र
- 2) मूल्य हास लेखांकन
- 3) रहतिये का मूल्यांकन
- 4) स्थायी सम्पतियों के लिए लेखांकन

---

Ques # :31

**AS - 14 is related to**

- 1) Accounting for Amalgamation
- 2) Accounting for Investments
- 3) Accounting for Govt. Grants
- 4) Borrowing costs

**लेखा मानक 14 सम्बंधित है**

- 1) एकीकरण के लिए लेखांकन
- 2) विनियोग के लिए लेखांकन
- 3) सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन
- 4) उधार की लागतें

---

Ques # :32

**AS - 12 is related to**

- 1) Employee benefits
- 2) Accounting for Govt. Grants.
- 3) Borrowing Cost
- 4) None of these

**लेखा मानक 12 सम्बंधित है**

- 1) कर्मचारियों के लाभ
- 2) सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन
- 3) उधार की लागते
- 4) इनमे से कोई नहीं

---

Ques # :33

**Meaning of Compound Entry is :-**

- 1) Different Transactions of different dates are entered as a single entry
- 2) Different Transactions of same date are entered as a single entry
- 3) Different Transactions of different dates are entered as a single entry and Different Transactions of same date are entered as a single entry
- 4) None of these

**मिश्रित प्रविष्ट का अर्थ है :-**

- 1) एक प्रविष्टि के रूप में विभिन्न व्यवहारों व विभिन्न तिथियों का लेखांकन
  - 2) एक प्रविष्टि के रूप में विभिन्न व्यवहारों व एक ही तिथि के सम्बन्ध में लेखांकन
  - 3) एक प्रविष्टि के रूप में विभिन्न व्यवहारों व विभिन्न तिथियों का लेखांकन व एक प्रविष्टि के रूप में विभिन्न व्यवहारों व एक ही तिथि के सम्बन्ध में लेखांकन
  - 4) इनमे से कोई नहीं
- 

Ques # :34

**Green/Environmental Balance sheet shows**

- 1) Environmental Assets
- 2) Environmental Liabilities
- 3) Environmental Capital
- 4) All of these

**ग्रीन/ पर्यावरण चिह्न दर्शाता है -**

- 1) पर्यावरण सम्पत्तियाँ
  - 2) पर्यावरण दायित्व
  - 3) पर्यावरण पूंजी
  - 4) इनमे से सभी
- 

Ques # :35

**The National Environmental Protection Act was passed in India in which year.**

- 1) 1974
- 2) 1981
- 3) 1986
- 4) 1995

**राष्ट्रीय पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम भारत में किस वर्ष में पारित हुआ |**

- 1) 1974
  - 2) 1981
  - 3) 1986
  - 4) 1995
- 

Ques # :36

**The balance of Capital Reduction a/c is generally transferred to**

- 1) General Reserve Account
- 2) Capital Reserve Account
- 3) Profit & Loss Statement
- 4) Security Premium Account

**पूंजी कटौती खाते का शेष सामान्यतः हस्तान्तरित किया जाता है**

- 1) सामान्य संचय खाता
  - 2) पूंजी संचय खाता
  - 3) लाभहानि विवरण पत्र
  - 4) प्रतिभूति प्रीमियम खाता
- 

Ques # :37

**Which of the following statement is true ?**

- 1) Post acquisition Profit of subsidiary company is always capital profit.
- 2) Every holding company is not required to prepare consolidated balance sheet and Profit & Loss a/c under

company Act

- 3) Holding company means the company which holds the entire share of another company.
- 4) A company is subsidiary company of a holding company when the latter company controls the composition of BOD of former company.

**निम्न में से कौनसा कथन सत्य है ?**

- 1) सहायक कम्पनी का सम्मेलन के पश्चात् का लाभ हमेशा पूंजीगत लाभ होता है
- 2) कम्पनी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक सूत्रधारी कम्पनी को एकीकृत चिह्न तथा एकीकृत लाभ-हानि खाता बनाना जरूरी नहीं है |
- 3) एकीकृत कम्पनी का अभिप्राय ऐसी कम्पनी से है जिसके पास दूसरी कम्पनी के सभी अंश हो |
- 4) एक सूत्रधारी कम्पनी वह होगी जो अपनी सहायक कम्पनी के सञ्चालन मंडल पर नियंत्रण रखती है |

---

Ques # :38

**Balance of Debenture sinking Fund A/C is transferred to**

- 1) General Reserve
- 2) Capital Reserve
- 3) Dividend Equalisation Reserve
- 4) None of these

**ऋणपत्र शोधन निधि का शेष हस्तांतरित किया जाता है :-**

- 1) सामान्य संचय
- 2) पूंजीगत संचय
- 3) लाभांश समानीकरण संचय
- 4) इनमे से कोई नहीं

---

Ques # :39

**The time interval between date of preparing balance sheet of holding company and subsidiary company**

- 1) Upto 1 year
- 2) Not more than 6 Months
- 3) More than 6 months
- 4) More than 1 year

**सूत्रधारी कम्पनी तथा सहायक कम्पनी द्वारा चिह्न बनाने के समय में अंतर हो सकता है**

- 1) एक वर्ष तक
- 2) 6 माह से अधिक नहीं
- 3) 6 माह से अधिक
- 4) एक वर्ष से अधिक

---

Ques # :40

**When the amount of Investment in subsidiary company is more than Nominal Value of share capital acquired by holding company difference is**

- 1) Goodwill
- 2) Capital Reserve
- 3) Capital Income
- 4) Revenue Profit

**जब सूत्रधारी कम्पनी द्वारा सहायक कम्पनी में किये गए विनियोग की राशि उनसे प्राप्त अंशों के सामान्य मूल्यों से अधिक हो तो अधिक राशि कहलाती है**

- 1) ख्याति
- 2) पूंजीगत संचय

- 3) पूंजीगत आय
  - 4) आयगत लाभ
- 

Ques # :41

**The Basic concept related to Balance Sheet are**

- 1) Cost Concept (Purchase Price)
- 2) Business Entity Concept
- 3) Accounting Period Concept
- 4) Both Cost Concept (Purchase Price) and Business Entity Concept

**चिह्ने से सम्बंधित मूल अवधारणा है**

- 1) व्यवसाय लागत सम्बंधित अवधारणा ( क्रय मूल्य )
  - 2) व्यवसाय अस्तित्व सम्बंधित अवधारणा
  - 3) लेखा काल सम्बंधित अवधारणा
  - 4) लागत सम्बंधित अवधारणा (क्रय मूल्य ) तथा व्यवसाय अस्तित्व सम्बंधित अवधारणा दोनों
- 

Ques # :42

**The Basic concept related to profit & loss account**

- 1) Realization Concept
- 2) Matching Concept
- 3) Cost Concept
- 4) Both Realization Concept and Matching Concept

**लाभ हानि खाते से सम्बंधित मूल अवधारणा है -**

- 1) वसूली सम्बंधित अवधारणा
  - 2) सुमेलन सम्बंधित अवधारणा
  - 3) लागत सम्बंधित अवधारणा
  - 4) वसूली सम्बंधित अवधारणा तथा उपयुक्तता सम्बंधित अवधारणा दोनों
- 

Ques # :43

**Accounting does not record non-financial transactions because of**

- 1) Entity Concept
- 2) Accrual Concept
- 3) Cost Concept
- 4) Money Measurement Concept

**गैर वित्तीय व्यवहारों का लेखा नहीं करने का कारण है**

- 1) अस्तित्व सम्बन्धी अवधारणा
  - 2) उपार्जन अवधारणा
  - 3) लागत सम्बंधित अवधारणा
  - 4) मुद्रा माप सम्बन्धी अवधारणा
- 

Ques # :44

**Capital is shown under Liabilities because of the**

- 1) Conservative concept
- 2) Accrual Concept
- 3) Entity Concept
- 4) All of these

पूंजी को दायित्व पक्ष पर दिखाया जाता है जिसका कारण है -

- 1) रुढ़िवादी अवधारणा
  - 2) उपार्जन सम्बन्धी अवधारणा
  - 3) अस्तित्व सम्बन्धी अवधारणा
  - 4) इनमे से सभी
- 

Ques # :45

**Which of the following is not a deferred revenue Expenditure.**

- 1) Preliminary expenses
- 2) Pre-operative expenses
- 3) Heavy advertising expenses to introduce a New product
- 4) Legal expenses for Breach of Contract

**निम्न में से कौन से स्थगित आयगत खर्च नहीं है |**

- 1) प्रारम्भिक खर्च
  - 2) पूर्व परिचालन व्यय
  - 3) नये उत्पाद के प्रवेश के समय के भारी विज्ञापन खर्च
  - 4) अनुबंध तोड़ने के कानूनी खर्च
- 

Ques # :46

**Cash Profit is**

- 1) Gross Profit - Operational Expenses
- 2) Net Profit - (Non Trading Profits + Depreciation and Provisions)
- 3) Gross Profits - Non trading Profits + Depreciation & Provisions
- 4) Net Profits + Depreciation and Provisions.

**नकद लाभ बराबर है**

- 1) सकल लाभ - परिचालन व्यय
  - 2) शुद्ध लाभ - (गैर व्यापारिक लाभ + हास तथा आयोजन)
  - 3) सकल लाभ - गैर व्यापारिक लाभ + हास तथा आयोजन
  - 4) शुद्ध लाभ + हास तथा आयोजन
- 

Ques # :47

**The Amount of capital which can be called up only at the time of winding up of the company is called**

- 1) Authorized capital
- 2) Issued capital
- 3) Called up capital
- 4) Reserve capital

**पूंजी की वह राशि जो केवल कम्पनी के समापन पर ही मांगी जा सकती है कहलाती है**

- 1) अधिकृत पूंजी
  - 2) निर्गमित पूंजी
  - 3) मांगी गयी पूंजी
  - 4) संचित पूंजी
- 

Ques # :48

### Minority Interest Consists of

- 1) Face value of shares held by outsiders
- 2) Proportionate share of capital Profit
- 3) Proportionate share of Revenue Profit
- 4) All of these

### अल्प संख्यक हित का हिस्सा होता है

- 1) ब्राह्म्य व्यक्तियों के अंशों का अंकित मूल्य
- 2) पूंजीगत लाभ में आनुपातिक हिस्सा
- 3) आयगत लाभ में अनुपातिक हिस्सा
- 4) इनमे से सभी

---

Ques # :49

**The Creditors of H Ltd include Rs. 6000 for the purchases from S Ltd. The Adjustment Entry made during the proportion of consolidated Balance Sheet will be**

- 1) Reduce Debtor by 6000.
- 2) Reduce Creditor by 6000.
- 3) Increase Debtors by 6000
- 4) Both Reduce Debtor by 6000 and Reduce Creditor by 6000

**H लि. के लेनदारों में 6000 रुपया S लि. की खरीद का शामिल हैं। एकीकृत चिह्न बनाते समय निम्न समायोजन किया जाएगा।**

- 1) देनदारों को 6000 से घटाया
- 2) लेनदारों को 6000 से घटाया
- 3) देनदारों को 6000 से बढ़ाया
- 4) देनदारों को 6000 से घटाया तथा लेनदारों को 6000 से घटाया दोनों

---

Ques # :50

**The existing 1000 shares of RS 100 each are altered to 10,000 shares of 10 each. This is known as**

- 1) Consolidation
- 2) Sub division
- 3) Conversion into stock
- 4) Surrender

**वर्तमान 100 रुपये वाले 1000 अंशों को 10 रु वाले 10,000 अंशों में परिवर्तित किये गये उसे कहा जाता है**

- 1) समेकन
- 2) उपविभाजन
- 3) स्टॉक में परिवर्तन
- 4) समर्पण

---

Ques # :51

**What is the effect of Increase in fixed cost in Break Even Point Analysis**

- 1) Reduce Profit Volume Ratio
- 2) Increase in Break even Point
- 3) Increase Margin of Safety
- 4) Reduces the Contribution

**समुविच्छेद बिंदु विश्लेषण में स्थायी लागत में वृद्धि का क्या प्रभाव है**

- 1) लाभ-मात्रा अनुपात में कमी
- 2)

- सम-विच्छेद बिन्दु में वृद्धि
- 3) सीमान्त सुरक्षा सीमा में वृद्धि
  - 4) अंशदान में कमी
- 

Ques # :52

**The Break-even Point in units is calculated by**

- 1) Fixed cost/Profit Volume Ratio
- 2) Fixed Cost/ Contribution per Unit
- 3) Variable Cost/ Contribution per Unit
- 4) Sales/ Contribution per Unit

**समविच्छेद बिन्दु ईकाईयों में निकला जाता है**

- 1) स्थाई लागत/ लाभ-मात्रा अनुपात
  - 2) स्थाई लागत/ अंशदान प्रति ईकाई
  - 3) परिवर्तनशील लागत/ अंशदान प्रति ईकाई
  - 4) विक्रय/ अंशदान प्रति ईकाई
- 

Ques # :53

**The basic difference between Marginal costing and absorption costing is the treatment of**

- 1) Direct Material
- 2) Variable Cost
- 3) Fixed Cost
- 4) Sales Cost

**सीमान्त लागत लेखांकन तथा अवशोषण लागत लेखांकन के व्यवहार अन्तर का मूलभूत कारण है**

- 1) प्रत्यक्ष सामग्री
  - 2) परिवर्तनशील लागत
  - 3) स्थायी लागत
  - 4) विक्रय लागत
- 

Ques # :54

**Why cash Budget is prepared ?**

- 1) It helps in cash Management
- 2) It helps in preparing Balance Sheet
- 3) It is legally compulsory
- 4) To calculate Profit & Loss

**रोकड़ बजट क्यों बनाया जाता है**

- 1) रोकड़ प्रबंध में सहायता हेतु
  - 2) चिह्न बनाने में सहायता हेतु
  - 3) यह वैधानिक रूप से आवश्यक है
  - 4) लाभ-हानि ज्ञात करने हेतु
- 

Ques # :55

**Activity based costing is method of**

- 1) Costing
- 2) Allocation
- 3) Analysis

4) All of these

**क्रिया आधारित लागत विधि है**

- 1) लागत निर्धारण
  - 2) आवंटन
  - 3) विश्लेषण
  - 4) इनमे से सभी
- 

Ques # :56

**In activity based costing an activity which generate cost is a**

- 1) Cost Sheet
- 2) Cost driver
- 3) Cost Tools
- 4) Cost Method

**क्रिया आधारित लागत लेखांकन में जो क्रिया लागत का निर्माण करती है**

- 1) लागत पत्रक
  - 2) लागत चालक
  - 3) लागत यंत्र
  - 4) लागत विधि
- 

Ques # :57

**Cost drives for Inspection are**

- 1) Number of Machine hours
- 2) Number of Inspectors
- 3) Number of Inspections
- 4) Number of Methods

**निरीक्षण के लिए लागत चालक होता है**

- 1) मशीन घंटो की संख्या
  - 2) निरीक्षकों की संख्या
  - 3) निरीक्षण की संख्या
  - 4) विधियों की संख्या
- 

Ques # :58

**Ram Ltd used 4538 Kg of material at a standard cost Rs. 2.50 per Kg. The material usages variance was 280 (favourable). The Standard usage of Material for the period is**

- 1) 4700 Kg
- 2) 4650 Kg
- 3) 4600 Kg
- 4) 4588 Kg

**राम लि. ने 4538 Kg सामग्री का उपयोग किया जिसकी प्रमाप दर 2.50 प्रति किलो था सामग्री उपयोग विचरण 280 (अनुकूल) था सामग्री की प्रमाप मात्रा ज्ञात करो**

- 1) 4700 किग्रा
- 2) 4650किग्रा
- 3) 4600 किग्रा
- 4) 4588 किग्रा



---

Ques # :59

**During a period 17500 labour hours were worked at a standard cost of Rs. 6.50 per hour. If labour efficiency variance is 7800 (favourable). The standard Labour hours are**

- 1) 20,000 hours
- 2) 18700 hours
- 3) 19200 hours
- 4) 18500 hours

**अवधि के दौरान 17500 श्रम घंटे कार्य किया गया जिसकी प्रमाण दर 6.50 रु. प्रति घंटा, श्रम कार्य कुशलता विचरण 7800 (अनुकूल) हो तो प्रमाण श्रम घंटे ज्ञात करो**

- 1) 20,000 घण्टे
- 2) 18700 घण्टे
- 3) 19200 घण्टे
- 4) 18500 घण्टे

---

Ques # :60

**The main object of cost accounting is**

- 1) To minimise the waste
- 2) Help in Inventory Valuation
- 3) To control and to reduce the cost
- 4) Help in fixation of price

**लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है**

- 1) क्षय कम करना
- 2) स्कन्ध मूल्यांकन में सहायता
- 3) लागत नियंत्रण व लागत में कमी लाना
- 4) मूल्य निर्धारण में सहायता करना

---

Ques # :61

**Conversion cost is equal to -**

- 1) Material cost and Direct Wages
- 2) Material cost and Indirect Wages
- 3) Direct wages and factory overhead
- 4) Material cost and factory overhead

**परिवर्तित लागत के बराबर होता है :-**

- 1) सामग्री लागत तथा प्रत्यक्ष मजदूरी
- 2) सामग्री लागत तथा अप्रत्यक्ष मजदूरी
- 3) प्रत्यक्ष मजदूरी तथा कारखाना उपरिव्यय
- 4) सामग्री लागत तथा कारखाना उपरिव्यय

---

Ques # :62

**If cost of 1000 units is Rs. 1000 and 1500 units is Rs. 1500, then Fixed cost is**

- 1) 2000
- 2) 1000
- 3) 500
- 4) Zero

**यदि 1000 इकाईयों की लागत 1000 रु. तथा 1500 इकाईयों की लागत 1500 रु. हो तो स्थाई लागत होगी**

- 1) 2000
  - 2) 1000
  - 3) 500
  - 4) शून्य
- 

Ques # :63

**The most suitable cost system where the Product is different by type of Material and work performance**

- 1) Job Costing
- 2) Operating Costing
- 3) Process Costing
- 4) None of these

**कौन सी लागत प्रविधि होगी जब उत्पाद में विभिन्न प्रकार की सामग्री तथा कार्य करना हो**

- 1) उपकार्य लागत निर्धारण
  - 2) परिचालन लागत निर्धारण
  - 3) प्रक्रिया लागत निर्धारण
  - 4) इनमे से कोई नहीं
- 

Ques # :64

**A Budget that gives a summary of all the functional Budgets and projected profit & Loss A/c is known as**

- 1) Capital Budget
- 2) Flexible Budget
- 3) Master Budget
- 4) None of these

**एक ऐसा बजट जो सारे क्रियात्मक बजटों की सूचना देता हो तथा प्रक्षेपित लाभ-हानि भी दिखाता हो कहलायेगा**

- 1) पूंजी बजट
  - 2) लोचशील बजट
  - 3) मास्टर बजट
  - 4) इनमे से कोई नहीं
- 

Ques # :65

**When preparing a Production Budget, the quantity to be produced is equal to**

- 1) Sales + Opening Stock + Closing Stock
- 2) Sales - Opening Stock + Closing Stock
- 3) Sales - Opening Stock - Closing Stock
- 4) Sales + Opening Stock - Closing Stock

**उत्पादन बजट बनाते समय उत्पादित मात्रा होगी**

- 1) विक्रय + प्रारम्भिक रहतिया + अंतिम रहतिया
  - 2) विक्रय - प्रारम्भिक रहतिया + अन्तिम रहतिया
  - 3) विक्रय - प्रारम्भिक रहतिया - अंतिम रहतिया
  - 4) विक्रय + प्रारम्भिक रहतिया - अंतिम रहतिया
- 

Ques # :66

**X requires 2400 Actual labour hours to complete works, 20% is Idle time, wages Rate is Rs. 10 per hour. Calculate Labour cost.**

- 1) Rs. 19200
- 2) Rs. 24000

3) Rs. 28800

4) Rs. 30000

एक्स को कार्य समाप्त करने के लिए 2400 वास्तविक श्रम घंटों की जरूरत है कुल घंटों का 20% कार्यहीन समय है यदि श्रम दर 10 रुपया प्रति घंटा हो तो श्रम लागत ज्ञात करो

1) 19200 रु

2) 24000 रु

3) 28800 रु

4) 30000 रु

---

Ques # :67

**Which of the following is excluded from Cash Budget ?**

1) Depreciation on Fixed Assets

2) Office Salaries

3) Commission Paid to Agent

4) Capital Cost of New Assets

**रोकड़ बजट बनाते समय निम्न में से किन को शामिल नहीं किया जाता**

1) स्थायी संपत्तियों पर हास

2) कार्यालय वेतन

3) एजेंट को दिया गया कमीशन

4) नयी सम्पत्ति की पूंजीगत लागत

---

Ques # :68

**Selling Price of X Product is Rs. 20 per unit, fixed cost Rs. 60,000. Contribution to sales ratio is 40%. Calculate Break even Point in Units**

1) 7000 Units

2) 7400 Units

3) 7500 Units

4) 8000 Units

**एक्स उत्पाद का विक्रय मूल्य 20 रुपया प्रति इकाई है स्थायी लागत 60,000 रुपया है | अंशदान अनुपात विक्रय का 40% है समविच्छेद बिन्दु इकाइयों में बताओ**

1) 7000 इकाइयाँ

2) 7400 इकाइयाँ

3) 7500 इकाइयाँ

4) 8000 इकाइयाँ

---

Ques # :69

**If selling price of product is Rs. 9 per unit, variable cost Rs. 6 per unit, Fixed cost Rs. 54000 per year, when Actual sales is Rs. 1,80,000. Calculate Margin of safety in units**

1) 2000 units

2) 4000 units

3) 6000 units

4) 8000 Units

**एक उत्पाद का विक्रय मूल्य 9 रुपया प्रति इकाई, परिवर्तनशील लागत 6 रु. प्रति इकाई स्थाई लागत 54000 रुपया प्रतिवर्ष, यदि वास्तविक बिक्री 1,80,000 रुपया है | तो सुरक्षा सीमा इकाइयों में ज्ञात करो**

1) 2000 इकाइयाँ

- 2) 4000 इकाइयाँ
  - 3) 6000 इकाइयाँ
  - 4) 8000 इकाइयाँ
- 

Ques # :70

**Contribution Ratio is 30%, Fixed Cost Rs 75000 per month. Calculate Sales per month to get Rs. 15000 as profit per month**

- 1) Rs. 2,00,000
- 2) Rs. 3,00,000
- 3) Rs. 2,76,000
- 4) Rs. 2,50,000

**अंशदान अनुपात 30% , स्थायी लागत 75000 रु प्रति माह हो| 15000 रुपया प्रतिमाह लाभ कमाने हेतु प्रतिमाह विक्रय ज्ञात करो**

- 1) 2,00,000 रु.
  - 2) 3,00,000 रु.
  - 3) 2,76,000 रु.
  - 4) 2,50,000 रु.
- 

Ques # :71

**If sales is Rs. 50,00,000, profit volume Ratio is 50% and Margin of safety is 40%. Calculate Profit.**

- 1) Rs. 25,00,000
- 2) Rs. 20,00,000
- 3) Rs.10,00,000
- 4) None of these

**यदि विक्रय रु. 50,00,000 लाभ-मात्रा अनुपात 50% तथा सुरक्षा सीमा 40% हो तो लाभ ज्ञात करे |**

- 1) 25,00,000 रु.
  - 2) 20,00,000 रु.
  - 3) 10,00,000 रु.
  - 4) इनमे से कोई नहीं
- 

Ques # :72

**An increase in selling price will effect**

- 1) Increase in Break-even-point
- 2) Decrease in Break-even-point
- 3) Does not effect Break even Point
- 4) None of these

**विक्रय मूल्य से वृद्धि प्रभावित करता है :-**

- 1) सम-विच्छेद बिन्दु को बढ़ाता है
  - 2) सम-विच्छेद बिन्दु को कम करता है
  - 3) सम-विच्छेद बिन्दु को प्रभावित नहीं करता है
  - 4) इनमे से कोई नहीं
- 

Ques # :73

**If fixed cost decreases while variable cost is remained unchanged new Break Even Point in relation to old Break even point will be**

- 1) Lower
- 2) Higher
- 3) No change
- 4) None of these

**यदि स्थिर लागत कम हो जाए जबकि परिवर्तनशील लागत अपरिवर्तित हो नया समविच्छेद बिंदु पुराने समविच्छेद बिंदु की अपेक्षा होगा**

- 1) कम
- 2) अधिक
- 3) अपरिवर्तित
- 4) इनमे से कोई नहीं

---

Ques # :74

**Which of the following is an irrelevant cost ?**

- 1) Sunk cost
- 2) Opportunity cost
- 3) Replacement cost
- 4) All of these

**निम्न में से कौनसी लागत अप्रासांगिक लागत है :-**

- 1) डूबत लागत
- 2) अवसर लागत
- 3) प्रतिस्थापन लागत
- 4) इनमे से सभी

---

Ques # :75

**When margin of safety is 28% Profit Volume Ratio is 60% Profit will be**

- 1) 80%
- 2) 33.33%
- 3) 66.67%
- 4) 16.8%

**यदि सुरक्षा सीमा 28% तथा लाभ-मात्रा अनुपात 60% हो तो लाभ होगा**

- 1) 80%
- 2) 33.33%
- 3) 66.67%
- 4) 16.8%

---

Ques # :76

**An export order is generally accepted at -**

- 1) Below Marginal cost
- 2) Below Fixed cost
- 3) Below total cost but above marginal cost
- 4) Below total cost but above fixed cost

**एक निर्यात आदेश को सामान्यतः स्वीकार किया जाता है**

- 1) सीमान्त लागत से कम
- 2) स्थायी लागत से कम
- 3) कुल लागत से कम लेकिन सीमान्त लागत से ज्यादा
- 4) कुल लागत से कम लेकिन स्थायी लागत से ज्यादा

---

Ques # :77

**A company has an idle plant capacity. It gets a bulk order which will not affect prices of company products in the market. Such a bulk order may be accepted at a price which is more than its -**

- 1) Fixed cost
- 2) Variable cost
- 3) Variable cost plus any opportunity cost of idle capacity
- 4) Total cost

**एक कम्पनी के पास कार्यहीन प्लान्ट क्षमता है | उसे एक बड़ा आदेश मिलता है जो कि कम्पनी के उत्पाद को बाज़ार में मूल्य को प्रभावित नहीं करेगा | ऐसे बड़े आदेश को निम्न में से किस से अधिक मूल्य पर स्वीकार किया जा सकता है :-**

- 1) स्थाई लागत पर
- 2) परिवर्तनशील लागत पर
- 3) परिवर्तनशील लागत व कार्यहीन क्षमता की कोई अवसर लागत
- 4) कुल लागत

---

Ques # :78

**Basic standard is established for**

- 1) Short Period
- 2) Long Period
- 3) Short and long period both
- 4) Indefinite Period

**आधार भूत प्रमाप स्थापित किये जाते हैं**

- 1) अल्पकाल के लिए
- 2) दीर्घ काल के लिए
- 3) अल्पकाल तथा दीर्घकाल के लिए
- 4) अनिश्चित अवधि के लिए

---

Ques # :79

**The logical development of Budgetary control is**

- 1) Marginal Costing
- 2) Standard Costing
- 3) Differential Costing
- 4) Absorption Costing

**बजटरी नियन्त्रण का तार्किक विकास है**

- 1) सीमान्त लागत निर्धारण
- 2) प्रमाप लागत निर्धारण
- 3) विभेदात्मक लागत निर्धारण
- 4) अवशोषण लागत निर्धारण

---

Ques # :80

**A system where manufacturer ascertain the cost after incurring expenses is known as**

- 1) Standard costing
- 2) Marginal costing
- 3) Operating costing
- 4) Historical costing

एक ऐसी विधि जिसके अन्तर्गत उत्पादक खर्च करने के पश्चात लागत ज्ञात करता है ऐसी लागत कहलाती है

- 1) प्रमाप लागत निर्धारण
- 2) सीमान्त लागत निर्धारण
- 3) परिचालन लागत निर्धारण
- 4) ऐतिहासिक लागत निर्धारण

---

Ques # :81

**The difference between standard output and Actual output Multiplied by Standard Variable overhead rate is equal to**

- 1) Variable overhead cost Variance
- 2) Variable overhead efficiency Variance
- 3) Variable overhead Budget Variance
- 4) Variable overhead Volume Variance

**यदि प्रमाप उत्पाद तथा वास्तविक उत्पाद के अन्तर को प्रमाप परिवर्तनशील उपरिव्यय दर से गुणा कर दिया जाए तो वह बराबर होगा**

- 1) परिवर्तनशील उपरिव्यय लागत विचरण
- 2) परिवर्तनशील उपरिव्यय कार्यकुशलता विचरण
- 3) परिवर्तनशील उपरिव्यय बजट विचरण
- 4) परिवर्तनशील उपरिव्यय मात्रा विचरण

---

Ques # :82

**The Difference between Actual Fixed overhead and Budgeted Fixed overhead is known as -**

- 1) Fixed overhead cost Variance
- 2) Fixed overhead Expenditure Variance
- 3) Fixed overhead Volume Variance
- 4) Fixed overhead capacity Variance

**वास्तविक स्थायी व्यय तथा बजट में निर्धारित स्थायी व्यय के अंतर को कहा जाता है |**

- 1) स्थायी उपरिव्यय लागत विचरण
- 2) स्थायी उपरिव्यय व्यय विचरण
- 3) स्थायी उपरिव्यय मात्रा विचरण
- 4) स्थायी उपरिव्यय क्षमता विचरण

---

Ques # :83

**In contract costing Payment of cash to the contractor is made on the basis of**

- 1) Uncertified work
- 2) Certified work
- 3) Works in progress
- 4) Retention Money

**ठेका लागत विधि में ठेकेदार को नकद का भुगतान किस आधार पर किया जाता है**

- 1) अप्रमाणित कार्य के
  - 2) प्रमाणित कार्य के
  - 3) अर्द्ध सम्पन्न कार्य के
  - 4) अवरोध राशि
-

Ques # :84

**Retention Money is equal to**

- 1) Work certified less work uncertified
- 2) Contract Price Less work certified
- 3) Work certified Less payment received by contractor
- 4) Work certified plus cash Received

**रोकी गयी राशि बराबर है**

- 1) प्रमाणित कार्य में से अप्रमाणित कार्य घटा कर
  - 2) ठेका मूल्य में से प्रमाणित कार्य घटा कर
  - 3) प्रमाणित कार्य में से ठेकेदार को प्राप्त राशि घटा कर
  - 4) प्रमाणित कार्य और नकद प्राप्ति
- 

Ques # :85

**Cost unit for Paper Industry is -**

- 1) Per Rim
- 2) Per Paper
- 3) Per Kg
- 4) Per quintal

**कागज़ उद्योग की प्रति लागत ईकाई होगी**

- 1) प्रति रिम
  - 2) प्रति कागज़
  - 3) प्रति किलो.
  - 4) प्रति क्विंटल
- 

Ques # :86

**Total Inventory Cost is :-**

- 1) Carrying Cost
- 2) Ordering Cost
- 3) Carrying Cost + Ordering Cost
- 4) Purchase Cost + Carrying Cost + Ordering Cost

**कुल स्कन्ध लागत है :-**

- 1) स्कन्ध में रखने की लागत
  - 2) आदेश देने की लागत
  - 3) स्कन्ध में रखने की लागत + आदेश देने की लागत
  - 4) क्रय लागत + स्कन्ध में रखने की लागत + आदेश देने की लागत
- 

Ques # :87

**When work certified is less than 25% of contract Price, Profit to be transferred to Profit & Loss Account**

- 1) Nil
- 2) 100% of Notional Profit
- 3) 1/3 of Notional profit
- 4) 2/3 of Notional Profit

**यदि प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य के 25% से कम हो तो लाभ, लाभ-हानि खाते में हस्तान्तरित होगा**

- 1) शून्य
- 2)



काल्पनिक लाभ का 100%

- 3) काल्पनिक लाभ का 1/3 भाग
  - 4) काल्पनिक लाभ का 2/3 भाग
- 

Ques # :88

**Which Accounting Standard relates with the accounting for construction contract -**

- 1) Accounting Standard 5
- 2) Accounting Standard 6
- 3) Accounting Standard 7
- 4) Accounting Standard 8

**निर्माणी ठेकों का लेखांकन किस लेखांकन प्रमाण से संबंधित है -**

- 1) लेखा मानक 5
  - 2) लेखा मानक 6
  - 3) लेखा मानक 7
  - 4) लेखा मानक 8
- 

Ques # :89

**The technique of Profit Planning is :-**

- 1) Marginal Costing
- 2) Standard Costing
- 3) Budgetary Control
- 4) None of these

**लाभ नियोजन की तकनीक है :-**

- 1) सीमान्त लागत निर्धारण
  - 2) प्रमाण लागत निर्धारण
  - 3) बजटरी नियंत्रण
  - 4) इनमे से कोई नहीं
- 

Ques # :90

**Variable Cost is :-**

- 1) Direct Cost
- 2) Direct Cost + Variable overheads
- 3) Absorption Cost
- 4) None of these

**परिवर्तनशील लागत है :-**

- 1) प्रत्यक्ष लागत
  - 2) प्रत्यक्ष लागत + परिवर्तनशील उपरिव्यय
  - 3) अवशोषण लागत
  - 4) इनमे से कोई नहीं
- 

Ques # :91

**Contract Price Rs. 3,00,000 , Estimated Profit Rs. 60,000 Retention money 20% of certified work, works certified 60% of contract Price. Calculate amount of Profit transfer to Profit & Loss a/c**

- 1) Rs. 60,000
- 2) Rs. 28,800

- 3) Rs. 32,000
- 4) Rs. 48,000

ठेका मूल्य 3,00,000 रु अनुमानित लाभ 60,000 , अवरोध राशि प्रमाणित कार्य का 20% , प्रमाणित कार्य, ठेका मूल्य का 60% | लाभ-हानि खाते में हस्तान्तरित होने वाली लाभ की राशि ज्ञात करो

- 1) 60,000 रु.
- 2) 28,800 रु.
- 3) 32,000 रु.
- 4) 48,000 रु.

---

Ques # :92

**When two or more than two products are produced which have equal value known as**

- 1) Joint Product
- 2) By-Product
- 3) Co-Product
- 4) Scrap

जब दो अथवा दो से अधिक समान मूल्यों के उत्पादों का उत्पादन होता है तो ऐसे उत्पाद को कहा जाता है

- 1) संयुक्त उत्पाद
- 2) उप उत्पाद (उपोत्पाद)
- 3) सहउत्पाद
- 4) अवशेष

---

Ques # :93

**Work-in-progress in contract costing is :-**

- 1) Value of work certified + cost of work uncertified
- 2) Cost of work certified + Cost of work uncertified
- 3) Value of work certified + Cost of work uncertified - Profit kept as reserve
- 4) None of these

**ठेका लागत निर्धारण में चालू कार्य है :-**

- 1) प्रमाणित कार्य का मूल्य + अप्रमाणित कार्य की लागत
- 2) प्रमाणित कार्य की लागत + अप्रमाणित कार्य की लागत
- 3) प्रमाणित कार्य का मूल्य + अप्रमाणित कार्य की लागत - संचय के रूप में रखा गया लाभ
- 4) इनमें से कोई नहीं

---

Ques # :94

**Which of the following does not use Process costing**

- 1) Oil Refinery
- 2) Chemical works
- 3) Sugar works
- 4) Aircraft manufacturing

**निम्न में से कौन प्रक्रिया लेखांकन का उपयोग नहीं करते**

- 1) तेल शोधन
- 2) रसायन उद्योग
- 3) चीनी उद्योग
- 4) वायुयान निर्माण

---

Ques # :95

**Input 12000 Kg, Normal loss 10% of input. If output is 10920 Kg. What is abnormal Loss/Gain**

- 1) Abnormal Gain 120 Kg
- 2) Abnormal Loss 120 Kg
- 3) Abnormal Gain 1080 Kg
- 4) Abnormal Loss 1080 Kg

**सामग्री डाली 12000 Kg, डाली गयी सामग्री का 10% सामान्य हानि | यदि तैयार सामग्री 10920 कि.ग्रा. हो तो असामान्य हानि/ लाभ ज्ञात करो**

- 1) असामान्य लाभ 120 किलो ग्राम
- 2) असामान्य हानि 120 किलो ग्राम
- 3) असामान्य लाभ 1080 किलो ग्राम
- 4) असामान्य हानि 1080 किलो ग्राम

---

Ques # :96

**Wastage of Raw material during Process is 20% of Input. What quantity of Raw material is required per Kg of output ?**

- 1) 0.8 Kg
- 2) 1.2 Kg
- 3) 1.25 Kg
- 4) 1.33 Kg

**मशीन में डाली गयी सामग्री का 20% सामान्य हानि है | 1 किलो ग्राम तैयार माल प्राप्त करने हेतु कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी |**

- 1) 0.8 किलोग्राम
- 2) 1.2 किलोग्राम
- 3) 1.25 किलोग्राम
- 4) 1.33 किलोग्राम

---

Ques # :97

**Cost unit for Water supply Industry is**

- 1) Per 100 gallons
- 2) Per 1000 gallons
- 3) Per 10000 gallons
- 4) Per gallon

**जल पूर्ती उद्योग के लिए लागत इकाई होगी**

- 1) प्रति 100 गैलेन
- 2) प्रति 1000 गैलेन
- 3) प्रति 10000 गैलेन
- 4) प्रति गैलेन

---

Ques # :98

**The Expenses which are not related to operations process but related to time (period) are known as**

- 1) Variable Expenses
- 2) Semi Variable Expenses
- 3) Semi Fixed Expenses

4) Fixed Expenses

ऐसे सभी खर्चे जो परिचालन से सम्बंधित नहीं होते परन्तु समय (अवधि) से सम्बंधित होते हैं उन्हें कहा जाता है।

- 1) परिवर्तनशील खर्चे
  - 2) अर्धपरिवर्तनशील खर्चे
  - 3) अर्धस्थायी खर्चे
  - 4) स्थायी खर्चे
- 

Ques # :99

**The cost unit in operating costing is a**

- 1) Simple Cost unit
- 2) Composite Cost unit
- 3) Simple or Composite Cost unit
- 4) None of these

**परिचालन लागत निर्धारण में लागत इकाई होती है**

- 1) साधारण लागत इकाई
  - 2) मिश्रित लागत इकाई
  - 3) साधारण या मिश्रित लागत इकाई
  - 4) इनमे से कोई नहीं
- 

Ques # :100

**When the detail related with cost of production presented in the form of Account is known as -**

- 1) Trading & Profit & Loss Account
- 2) Production Account
- 3) Cost sheet
- 4) Statement of cost

**जब उत्पादन की लागत सम्बन्धी सूचनाओं को लेखे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे कहा जाता है**

- 1) व्यापारिक व लाभ-हानि खाता
  - 2) उत्पादन खाता
  - 3) लागत पत्र
  - 4) लागत का विवरण पत्र
- 

Ques # :101

**Which activity is not the part of Financial Activity in Cash Flow Statement ?**

- 1) Issue of Share
- 2) Buy back of share
- 3) Purchase of Buliding
- 4) Payment of dividend

**रोकड़ प्रवाह विवरण के वित्तीय क्रियाओं में कौनसा शामिल नहीं है।**

- 1) अंशों का निर्गमन
  - 2) अंशों का पुनः खरीद
  - 3) भवन की खरीद
  - 4) लाभांश का भुगतान
- 

Ques # :102

**Which one of the following item is a Non Cash transaction ?**

- 1) Redemption of preference share
- 2) Redemption of Debentures
- 3) Conversion of Debentures into shares
- 4) Purchases of Asset

**निम्न मदों में से कौन सा गैर नकद ब्यवहार है**

- 1) पूर्वाधिकार अंशों का शोधन
- 2) ऋण पत्रों का शोधन
- 3) ऋण पत्रों का अंशों में परिवर्तन
- 4) संपत्ति का क्रय

---

Ques # :103

**Which activity is an investment activity in cash flow statement from the following :-**

- 1) Redemption of Debentures
- 2) Dividend Paid
- 3) Interest Paid
- 4) Purchase of Plant & Machinery

**रोकड़ प्रवाह विवरण के अंतर्गत निम्न में से कौनसी विनियोग क्रिया है :-**

- 1) ऋणपत्रों का शोधन
- 2) लाभांश का भुगतान
- 3) ब्याज चुकाया
- 4) प्लांट तथा मशीन की खरीद

---

Ques # :104

**Cash flow statement is presented to state**

- 1) Opening balance of cash or cash Equivalents.
- 2) Sources and application of Cash and Cash Equivalents
- 3) Sources and application of working capital
- 4) All of these

**रोकड़ प्रवाह विवरण बताता है :-**

- 1) नकद तथा नकद तुल्य का प्रारम्भिक शेष
- 2) रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य के स्रोत एवम् उपयोग
- 3) कार्यशील पूंजी का स्रोत तथा उपयोग
- 4) इनमे से सभी

---

Ques # :105

**The Methods of cash flow statement described in Revised As 3**

- 1) Direct Method
- 2) Indirect Method
- 3) Direct and Indirect Method
- 4) None of these

**संशोधित लेखांकन मानक 3 रोकड़ प्रवाह विवरण प्रस्तुत करने की विधि है |**

- 1) प्रत्यक्ष विधि
- 2) अप्रत्यक्ष विधि
- 3)

प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विधि

4) इनमें से कोई नहीं

---

Ques # :106

**Issue of Equity shares for consideration of Purchase of land is**

- 1) Cash out flow
- 2) Cash inflow
- 3) Cash Inflow & Outflow both
- 4) Neither Cash Inflow nor Cash outflow

**भूमि को क्रय करने के प्रतिफल में समता अंशों का निर्गमन कहलायेगा**

- 1) रोकड़ का बाह्य प्रवाह
  - 2) रोकड़ का अन्तर्वाह
  - 3) रोकड़ का बाह्य तथा अन्तर्वाह
  - 4) न तो रोकड़ का बाह्य प्रवाह न ही अन्तर्वाह
- 

Ques # :107

**Ram Ltd has a current Ratio 4.5:1 and Quick Ratio 3:1. If its inventory is Rs. 72000. Calculate Current Liabilities**

- 1) Rs. 2,16,000
- 2) Rs. 73000
- 3) Rs. 48,000
- 4) Rs. 84,000

**यदि राम लि. की चालू अनुपात 4.5:1 तथा त्वरित अनुपात 3:1 हो एवं स्कन्ध की मात्रा 72,000 रु हो तो चालू दायित्व ज्ञात करो**

- 1) 2,16,000 रु.
  - 2) 73000 रु.
  - 3) 48,000 रु.
  - 4) 84,000 रु.
- 

Ques # :108

**A company has share holder's equity of Rs. 2,00,000/- Total Assets are 60% of share holder's equity assets, turn over Ratio 4 times, Inventory Turnover is 6 times. Calculate amount of Inventory.**

- 1) Rs. 4,80,000
- 2) Rs. 8,00,000
- 3) Rs. 80,000
- 4) Rs. 6,00,000

**एक कम्पनी की अंशधारियों की समता रु. 2,00,000/- है | कुल सम्पत्तिया अंशधारियों की समता का 60% है | संपत्ति आर्वत 4 गुणा तथा स्कन्ध आर्वत 6 गुणा है | स्कन्ध की राशि ज्ञात करो**

- 1) 4,80,000 रु.
  - 2) 8,00,000 रु.
  - 3) 80,000 रु.
  - 4) 6,00,000 रु.
- 

Ques # :109

**Calculate opening Debtor - Total sales Rs. 3,00,000, cash sales 60% , closing Debtors Rs. 25,000 and average**

collection period is 2 months

- 1) Rs. 25,000
- 2) Rs. 20,000
- 3) Rs. 15,000
- 4) Rs. 40,000

प्राथमिक देनदार ज्ञात करो - जबकि कुल विक्रय रू. 3,00,000, नकद विक्रय 60% , अंतिम देनदार 25,000 , तथा औसत संग्रह अवधि 2 माह है |

- 1) 25,000 रू.
- 2) 20,000 रू.
- 3) 15,000 रू.
- 4) 40,000 रू.

---

Ques # :110

Capital Rs. 15,00,000 , Capital turn over 4 times and profit on sales is 10%. Calculate Return on Capital ?

- 1) 20%
- 2) 30%
- 3) 40%
- 4) 25%

पूंजी 15,00,000, पूंजी आर्वत अनुपात 4 गुणा तथा विक्रय पर लाभ 10% है | पूंजी पर लाभ ज्ञात करो ?

- 1) 20%
- 2) 30%
- 3) 40%
- 4) 25%

---

Ques # :111

Financial Structure means :-

- 1) Equity share capital + Preference Share Capital + Long term Loan
- 2) Equity share capital + Preference Share Capital + Long term Loan + Retained Earnings
- 3) Equity share Capital + Preference share capital + Long term Loan + Retained Earnings + Current liabilities
- 4) None of these

वित्तीय संरचना का अर्थ है

- 1) समता अंश पूंजी + पूर्वाधिकार अंश पूंजी + दीर्घकालीन ऋण
- 2) समता अंश पूंजी + पूर्वाधिकार अंश पूंजी + दीर्घकालीन ऋण + प्रतिधारित अर्जनें
- 3) समता अंश पूंजी + पूर्वाधिकार अंश पूंजी + दीर्घकालीन ऋण + प्रतिधारित अर्जनें + चालू दायित्व
- 4) इनमे से कोई नहीं

---

Ques # :112

Average stock 73000, Debtors 45000, Stock turn over 6 times, Gross profit Margin 20% of sales and credit sales 40% of Total sales. Calculate Average collection period.

- 1) 146 days
- 2) 75 days
- 3) 73 days
- 4) 90 days

औसत स्कन्ध 73,000, देनदार 45,000 , स्कन्ध आर्वत अनुपात 6 गुणा, सकल लाभ अनुपात बिक्री का 20% तथा कुल विक्रय का 40% उधार विक्रय है | औसत संग्रह अवधि ज्ञात करो

- 1) 146 दिन
- 2)

- 75 दिन  
3) 73 दिन  
4) 90 दिन
- 

Ques # :113

The monthly cash requirements of a company are Rs. 60000; fixed cost per transaction Rs. 10 and interest rate on marketable securities is 6% p.a. The optimum cash balance will be

- 1) Rs. 15,000
- 2) Rs. 20,000
- 3) Rs. 25,000
- 4) Rs. 30,000

यदि एक कम्पनी की मासिक रोकड़ आवश्यकताएं 60,000 रु, प्रति व्यवहार स्थायी लागतें 10 रु. तथा विपणन योग्य प्रतिभूतियों पर ब्याज दर 6 प्रतिशत वार्षिक हो, तो अनुकूलतम रोकड़ शेष होगा :-

- 1) 15,000 रु.
  - 2) 20,000 रु.
  - 3) 25,000 रु.
  - 4) 30,000 रु.
- 

Ques # :114

Difference in capital Gearing Ratio and debts to Equity ratio is due to

- 1) Preference share capital
- 2) Equity share capital
- 3) Preference share capital + Equity share capital
- 4) None of these

पूंजी दन्तिकरण अनुपात तथा ऋण समता अनुपात में अंतर का कारण है

- 1) पूर्वाधिकार अंश पूंजी
  - 2) समता अंश पूंजी
  - 3) पूर्वाधिकार अंश पूंजी + समता अंश पूंजी
  - 4) इनमे से कोई नहीं
- 

Ques # :115

Acid Test Ratio means

- 1) Liquidity
- 2) Profitability
- 3) Efficiency
- 4) Long term Solvency

अम्ल परिक्षण अनुपात मापता है

- 1) तरलता
  - 2) लाभदायकता
  - 3) कुशलता
  - 4) दीर्घकालीन शोधन क्षमता
- 

Ques # :116

Capital turn over Ratio is 12 and net profit Ratio is 30%. The overall profitiability is

- 1) 40%



- 2) 3.6%
- 3) 2.5%
- 4) 18%

यदि पूँजी आवर्त अनुपात 12 तथा शुद्ध लाभ अनुपात 30% है | समग्र लाभदायकता अनुपात ज्ञात करो

- 1) 40%
- 2) 3.6%
- 3) 2.5%
- 4) 18%

---

Ques # :117

**On which factor Du-point control Chart depends :-**

- 1) Profit
- 2) Investment
- 3) Profit and Investment
- 4) Sales

**डू पोइंट नियंत्रण मानचित्र किस तथ्य पर निर्भर है :-**

- 1) लाभ
- 2) विनियोग
- 3) लाभ एवं विनियोग
- 4) विक्रय

---

Ques # :118

**Net Profit for year ending 31-3-2016 is Rs. 3,00,000. This figure of the N.P. Has been arrived after taking into following items:- Depreciation on Fixed Assets Rs. 65,000, Preliminary Expenses written off Rs. 7,000 and Profit on sale of long term Investments Rs. 5,000. Fund from operation will be :-**

- 1) Rs. 3,77,000
- 2) Rs. 4,33,000
- 3) Rs. 4,38,000
- 4) Rs. 3,67,000

**31मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का शुद्ध लाभ 3,00,000 रु. है | शुद्ध लाभ में निम्न मदें शामिल हैं :- स्थायी सम्पत्तियों पर हास 65000, प्रारम्भिक व्यय अपलिखित 7000 रु. तथा दीर्घकालीन विनियोगी को बेचने से लाभ 5000 रु. |**

**संचालन लाभ होगा :-**

- 1) 3,77,000 रु.
- 2) 4,33,000 रु.
- 3) 4,38,000 रु.
- 4) 3,67,000 रु.

---

Ques # :119

**The Source of fund is :-**

- 1) Receipt of Bonus shares from subsidiary company
- 2) Receipt of licence to Import goods
- 3) Receipt of Dividend on Investment in shares of subsidiary company
- 4) None of these

**कोष का स्रोत है :-**

- 1) सहायक कम्पनी से बोनस अंशों की प्राप्ति
- 2) माल आयात करने के लिए लाईसेन्स की प्राप्ति
- 3)

सहायक कम्पनी के अंशों में विनियोग पर लाभांश की प्राप्ति

4) इनमे से कोई नहीं

---

Ques # :120

**There is a flow in funds when there is a transaction between**

- 1) Non current a/c with current a/c
- 2) Current a/c with current a/c
- 3) Non current account with Non current a/c
- 4) All of these

**कोष प्रवाह होता है जबकि निम्न के मध्य व्यवहार होता है |**

- 1) गैर चालू खाते का चालू खाते से
  - 2) चालू खाते का चालू खाते से
  - 3) गैर चालू खाते का गैर चालू खाते से
  - 4) इनमे से सभी
- 

Ques # :121

**The application of fund is**

- 1) Acceptance of supplier's Bills of exchange
- 2) Deposit of cash into bank
- 3) Endorsement of B/R in favour of creditors.
- 4) None of these

**कोष का उपयोग है :-**

- 1) आपूर्तिकर्ता के विनियय विपत्र पर स्वीकृति देना
  - 2) बैंक में नकद जमा करना
  - 3) लेनदारों के पक्ष में प्राप्त विपत्रों का बेचान करना
  - 4) इनमे से कोई नहीं
- 

Ques # :122

**Received a Dividend on investment Rs. 50,000 out of which Rs. 30,000 is related to preacquisition profit.**

**Sources of fund will be**

- 1) Rs. 30,000
- 2) Rs. 50,000
- 3) Rs. 20,000
- 4) None of these

**विनियोग पर 50,000 रुपये का लाभांश प्राप्त किया जिस में से 30,000 रुपया समामेलन से पूर्व लाभ से सम्बंधित है**

**| कोष का स्रोत होगा**

- 1) 30,000 रु.
  - 2) 50,000 रु.
  - 3) 20,000 रु.
  - 4) इनमे से कोई नहीं
- 

Ques # :123

**In current year, current Liabilities has decreased in comparison to Last year then working capital will :-**

- 1) Decrease
- 2) Increase

- 3) Constant
- 4) None of these

गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में चालू दायित्वों में कमी होती है तो इससे कार्यशील पूंजी में :-

- 1) कमी होगी
- 2) वृद्धि होगी
- 3) स्थिर होगी
- 4) इनमे से कोई नहीं

---

Ques # :124

In which year, The Institute of Chartered Accountants of India issued Revised Accounting Standard 3

- 1) June 1981
- 2) March 1997
- 3) June 1998
- 4) March 2000

इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस ऑफ़ इण्डिया ने लेखा मानक 3 का संसोधन कब निर्गमित किया

- 1) जून 1981
- 2) मार्च 1997
- 3) जून 1998
- 4) मार्च 2000

---

Ques # :125

From the following information P/V ratio will be

	Year 2014	Year 2015
Sales (Rs)	4, 72,500	5, 25,000
Total cost (Rs)	4, 20,000	4, 51,000

- 1) 20%
- 2) 25%
- 3) 60%
- 4) 40%

निम्न सूचनाओं से लाभ मात्र अनुपात होगा :-

	वर्ष 2014	वर्ष 2015
विक्रय(रु.)	4, 72,500	5, 25,000
कुल लागत(रु.)	4, 20,000	4, 51,500

- 1) 20%
- 2) 25%
- 3) 60%
- 4) 40%

---

Ques # :126

Cash budget is prepared by -

- 1) Receipts and Payment Method
- 2) Adjusted Profit and Loss Method
- 3) Projected Balance Sheet method

4) All of these

**रोकड़ बजट बनाया जाता है :-**

- 1) प्राप्ति एवं भुगतान पद्धति द्वारा
- 2) समायोजित लाभ हानि पद्धति द्वारा
- 3) प्रायोजित चिह्न पद्धति द्वारा
- 4) इनमे से सभी

---

Ques # :127

**The method of cost control under which the control of centre point will be responsible person for cost, not cost**

- 1) Social Accounting
- 2) Responsibility Accounting
- 3) Cost Accounting
- 4) Financial Accounting

**लागत नियंत्रण की वह विधि जिसमें नियंत्रण का केंद्र बिंदु लागत न होकर लागत के लिए उत्तरदायी व्यक्ति होता है :-**

- 1) सामाजिक लेखांकन
- 2) उत्तरदायित्व लेखांकन
- 3) लागत लेखांकन
- 4) वित्तीय लेखांकन

---

Ques # :128

**The Variance of Standard Costing remains always Adverse in Business called as :-**

- 1) Material Yield Variance
- 2) Idle Time Variance
- 3) Labour Yield Variance
- 4) None of these

**प्रमाप लागत का ऐसा विचरण जो सदैव व्यवसाय में प्रतिकूल ही होता है :-**

- 1) सामग्री उत्पादन विचरण
- 2) कार्यहीन समय विचरण
- 3) श्रम उत्पादन विचरण
- 4) इनमे से कोई नहीं

---

Ques # :129

**Debt Service Ratio is :**

- 1) EBIT/Interest Payable
- 2) EAT/ Interest Payable
- 3) Net profit/ Interest Payable
- 4) Gross Profit/ Interest Payable

**ऋण सेवा अनुपात है :-**

- 1) कर व ब्याज से पूर्व लाभ/ देय ब्याज
  - 2) कर के बाद लाभ/ देय ब्याज
  - 3) शुद्ध लाभ/ देय ब्याज
  - 4) सकल लाभ/ देय ब्याज
-

Ques # :130

**Trading on Thick Equity means :-**

- 1) Equity and Debts are equal
- 2) Equity is Less than Debts
- 3) Equity is more than Debts
- 4) None of these

**उच्च समता पर व्यापार से आशय :-**

- 1) समता तथा ऋण बराबर है
- 2) समता ऋण से कम है
- 3) समता ऋण से अधिक है
- 4) इनमे से कोई नहीं

---

Ques # :131

**Earnings per share of X Ltd. Are Rs. 9 and the market price of a share of face value of Rs. 100 is Rs. 150. Cost of Equity share capital will be**

- 1) 9%
- 2) 15%
- 3) 6%
- 4) None of these

**एक्स लि. की प्रति अंश आय 9 रु. है, तथा प्रति अंश बाज़ार मूल्य 150 रु है जबकि सम मूल्य 100 रु है | समता अंश पूंजी की लागत होगी :-**

- 1) 9%
- 2) 15%
- 3) 6%
- 4) इनमे से कोई नहीं

---

Ques # :132

**The components of Gross Period of operating cycle is**

- 1) Raw Material Storage period
- 2) Finished Stock Storage Period
- 3) Conversion Period (Semi finished goods)
- 4) All of these

**परिचालन चक्र का सकल अवधि के अवयव है**

- 1) कच्ची सामग्री की भण्डारण अवधि
- 2) तैयार माल की भण्डारण अवधि
- 3) परिवर्तन अवधि (अर्ध निर्मित माल)
- 4) इनमे से सभी

---

Ques # :133

**The cost of retained earnings will be :- Dividend per share Rs. 9, Personal Income Tax 25%, Personal Capital Gain tax rate 10%. Market Price per share Rs. 100**

- 1) 10%
- 2) 25%
- 3) 35%
- 4) 7.5%

**प्रतिधारित अर्जनों की लागत होगी :- लाभांश प्रति अंश 9 रु., व्यक्तिगत आय कर दर 25% व्यक्तिगत पूंजी लाभ**

कर दर 10%, बाज़ार मूल्य प्रति अंश 100 रु.

- 1) 10%
- 2) 25%
- 3) 35%
- 4) 7.5%

---

Ques # :134

**"The Cost of Capital is the minimum required rate of earnings or the cut off rate for capital expenditure."**

**Definition given by**

- 1) Milton H. Spencer
- 2) M J GORDON
- 3) Soloman Ezra
- 4) Hunt, William and Donaldson

**पूंजी लागत अपेक्षित अर्जनों की न्यूनतम दर अथवा पूंजी व्ययों की विच्छेद दर है |**

- 1) मिल्टन एच स्पेन्सर
- 2) एम. जे. गॉर्डन
- 3) सोलोमन इजरा
- 4) हंट, विलियम तथा डोनाल्डसन

---

Ques # :135

**Factor does not Influence the size of working capital**

- 1) Business fluctuations
- 2) Dividend Policy
- 3) Availability of Labour
- 4) Availability of Raw Material

**ऐसा घटक जो कार्यशील पूंजी के आकार को प्रभावित नहीं करता**

- 1) व्यवसाय का उच्चावचन
- 2) लाभांश नीति
- 3) श्रम की उपलब्धता
- 4) कच्ची सामग्री की उपलब्धता

---

Ques # :136

**Calculate working capital when operating period is 44 days, operating cost is Rs. 10,50,000, minimum cash required Rs. 50,000, No. Of days 365 in a year**

- 1) 1,76,575
- 2) 1,56,757
- 3) 2,00,000
- 4) 1,76,755

**कार्यशील पूंजी ज्ञात करो जबकि परिचालन अवधि 44 दिन, परिचालन लागत रु. 10,50,000 न्यूनतम नकद रु. 50,000, वर्ष में दिन 365 हो |**

- 1) 1,76,575
- 2) 1,56,757
- 3) 2,00,000
- 4) 1,76,755

---

Ques # :137

**Calculate working capital when current Assets Rs. 40,00,000 Current Liabilities Rs. 13,00,000 Provision for contingency is 10% of Total working Capital**

- 1) Rs. 29,70,000
- 2) Rs. 30,00,000
- 3) Rs. 44,00,000
- 4) Rs. 14,30,000

**कार्यशील पूंजी ज्ञात करो जब चालू संपत्ति 40 लाख रु. तथा चालू दायित्व 13 लाख रु. सम्भावनाओं के लिए आयोजन कुलकार्यशील पूंजी का 10% हो तो**

- 1) 29,70,000 रुपये
- 2) 30,00,000 रुपये
- 3) 44,00,000 रुपये
- 4) 14,30,000 रुपये

---

Ques # :138

**X Ltd earns Rs 5 per share is capitalised at the rate of 10% and has a rate of Return on Investment of 18%. According to Walter's formula. What should be price for share at 25%. Dividend Pay out Ratio ?**

- 1) Rs. 25
- 2) Rs. 80
- 3) Rs. 125
- 4) Rs. 90

**एक्स लि. जो 5 रुपया प्रति अंश अर्जित करती है 10% की दर से पूंजीकृत है | विनियोग की प्रत्यय दर 18% है वालटर सूत्र अनुसार 25% लाभांश अनुपात पर प्रति अंश मूल्य क्या होगा |**

- 1) 25 रु.
- 2) 80 रु.
- 3) 125 रु.
- 4) 90 रु.

---

Ques # :139

**Vivek Ltd has 10% actual capitalisation rate, a dividend pay out of 50% , and declares a dividend of Rs. 2 per share. The normal capitalisation rate in the Industry is 12 %. Calculate value of equity share by Gardon Model.**

- 1) 58.28
- 2) 85.28
- 3) 28.58
- 4) None of these

**विवेक लि. की वास्तविक पूंजी करण दर 10% , लाभांश भुगतान 50% प्रति अंश 2 रु. लाभांश वितरण करती है | उस उद्योग में सामान्य पूंजी करण दर 12% है गार्डन प्रतिमान का उपयोग करते हुए समता अंश का मूल्य ज्ञात करो |**

- 1) 58.28
- 2) 85.28
- 3) 28.58
- 4) इनमे से कोई नहीं

---

Ques # :140

**Current Market Price of Rs. 10 each Equity share is Rs. 15, Dividend per share is Rs. 1.5. if Growth rate is 5% per year. Calculate cost of Equity share capital.**

- 1) 10%
- 2) 22%
- 3) 15%
- 4) 17%

10 रूपये के अंकित मूल्य के समता अंश की चालू बाज़ार मूल्य 15 रु. है प्रति अंश लाभंश 1.5 रु है | यदि प्रति वर्ष लाभंश वृद्धि दर 5% हो तो समता अंश पूंजी की लागत ज्ञात करो

- 1) 10%
- 2) 22%
- 3) 15%
- 4) 17%

---

Ques # :141

**The Cost under which to accept the specific Investing project, forgo the alternative options, called as :-**

- 1) Explicit Cost
- 2) Future Cost
- 3) Historical Cost
- 4) Opportunity Cost

**किसी विशिष्ट विनियोग परियोजना को स्वीकार करने के लिए छोड़े गए वैकल्पिक विकल्पों की लागत कहलाती है :-**

- 1) स्पष्ट लागत
- 2) भावी लागत
- 3) ऐतिहासिक लागत
- 4) अवसर लागत

---

Ques # :142

**Price Earning Ratio is useful for**

- 1) Short term creditors
- 2) Long term creditors
- 3) Share holders
- 4) Both Short term and Long term creditors

**मूल्य अर्जन अनुपात उपयोगी है**

- 1) अल्पकालीन ऋणदाता के लिए
- 2) दीर्घकालीन ऋणदाता के लिए
- 3) अंशधारियों के लिए
- 4) अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋणदाता दोनों के लिए

---

Ques # :143

**Stock Turn over Ratio is :-**

- 1) Sales/ Closing Stock
- 2) Sales/ Average Stock
- 3) Cost of goods sold/ Average Stock
- 4) Cost of goods sold/ Closing Stock

**स्कन्ध आर्वत अनुपात है :-**

- 1) विक्रय/ अंतिम रहतियां
  - 2) विक्रय/ औसत रहतियां
  - 3) बेचे गए माल की लागत/ औसत रहतियां
  - 4) बेचे गए माल की लागत/ अंतिम रहतियां
-



Ques # :144

**"Equity capital is cost free" Is this statement true ?**

- 1) True
- 2) False
- 3) Partly True and Partly False
- 4) None of these

**समता पूंजी लागत मुक्त है | क्या यह कथन सत्य है ?**

- 1) सत्य
  - 2) असत्य
  - 3) अर्ध सत्य एवम् अर्ध असत्य
  - 4) इनमे से कोई नहीं
- 

Ques # :145

**Overall Solvency Ratio is :-**

- 1) Total Liabilities ÷ Total Assets
- 2) Total Outside liabilities ÷ Total Assets
- 3) Total Internal liabilities ÷ Total Assets
- 4) None of these

**समग्र शोधन क्षमता अनुपात है :-**

- 1) कुल दायित्व ÷ कुल सम्पतियाँ
  - 2) कुल ब्राह्य दायित्व ÷ कुल सम्पतियाँ
  - 3) कुल आन्तरिक दायित्व ÷ कुल सम्पतियाँ
  - 4) इनमे से कोई नहीं
- 

Ques # :146

**Management Accounting involves**

- 1) Preparation of Financial Statements
- 2) Analysis and interpretation of data
- 3) Recording of transactions
- 4) None of these

**प्रबन्धकीय लेखांकन में सम्मिलित है :-**

- 1) वित्तीय विवरण पत्रों का निर्माण
  - 2) आंकड़ों का विश्लेषण व निर्वचन
  - 3) व्यवहारों का अभिलेखन
  - 4) इनमे से कोई नहीं
- 

Ques # :147

**When evaluating capital investment proposals. Time value of Money is used in the Technique.**

- 1) Internal Rate of Return
- 2) Average Rate of Return
- 3) Pay back period
- 4) None of these

**पूंजी विनियोग प्रस्तावों में मुद्रा के समय मूल्य का प्रयोग करने वाली तकनीक है**

- 1) आन्तरिक प्रत्याय दर
- 2)

औसत प्रत्याय दर

- 3) पुनः भुगतान अवधि
  - 4) इनमे से कोई नहीं
- 

Ques # :148

**Profitability Index is the ratio of**

- 1) Initial Investment to present value of cash inflow
- 2) Present value of cash inflow to Initial Investment
- 3) Average Income to Initial Investment
- 4) None of these

**लाभदायकता सूचकांक अनुपात है**

- 1) प्रारम्भिक विनियोग का रोकड़ अंतर्प्रवाह के वर्तमान मूल्य से
  - 2) रोकड़ अन्तर्प्रवाह के वर्तमान मूल्य का प्रारम्भिक विनियोग से
  - 3) औसत आय का प्रारम्भिक विनियोग से
  - 4) इनमे से कोई नहीं
- 

Ques # :149

**Cash Inflow After Tax means**

- 1) Cash Revenue - Cash Expenses
- 2) Total Revenue - Total Expenses
- 3) Cash Inflow before Tax - Expenses
- 4) Operating Profit + Depreciation - Tax

**कर पश्चात रोकड़ प्रवाह का अर्थ है :-**

- 1) नकद आय - नकद खर्च
  - 2) कुल आय - कुल खर्च
  - 3) कर से पूर्व रोकड़ अंतर्प्रवाह - खर्च
  - 4) परिचालन लाभ + हास - कर
- 

Ques # :150

**What is the basic assumption of dividend yield plus growth method of cost of capital**

- 1) Constant growth of firm
- 2) Costant dividend pay out
- 3) Both Constant growth of firm and Constant dividend pay out
- 4) None of these

**पूँजी की लागत ज्ञात करने के लिए लाभांश प्राप्ति तथा लाभांश में वृद्धि विधि की आधारभूत धारणा क्या है \_\_\_\_\_**

- 1) फर्म की लगातार वृद्धि
  - 2) लाभांश का लगातार भुगतान
  - 3) फर्म की लगातार वृद्धि व लाभांश का लगातार भुगतान दोनों
  - 4) इनमे से कोई नहीं
-